



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 फाल्गुन 1935 (श10)  
(सं0 पटना 295) पटना, बुधवार, 12 मार्च 2014

---

विधि विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2014

एस0ओ0 211, दिनांक 12 मार्च 2014—जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-518/सपत्र, दिनांक 29.10.2013 के अनुसरण में मधेपुरा जिला के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप मधेपुरा जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार, निवारण), अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री चन्द्रशेखर यादव, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-2914/96 है, को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।
- सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह विषयांकित वादों (निष्पादित व लम्बित) से सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तथा जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबितवादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(सं०सं० सी०/ए०एस०-3-59/2009-1531/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्जवल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 295-571+25-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>